



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13062025-263778  
CG-MH-E-13062025-263778

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2506]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 12, 2025/ज्येष्ठ 22, 1947

No. 2506]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 2025/JYAISTHA 22, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 11 जून, 2025

का.आ. 2570(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 20 के उपखंड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम दुधी तहसील रामा जिला झाबुआ की यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाब्ध अनुसूची में दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में इंदौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाइन हेतु विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा(1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), भू अर्जन अधिकारी तहसील रामा जिला झाबुआ को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्टीशनर (अधिवक्ता) के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिए अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्योरे उपलब्ध है और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिले में दाहोद से इंदौर जाने वाली नई बीजी लाइन परियोजना (झाबुआ, सरदारपुर, धार और पिथामपुर के मध्य से)के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली अर्जनाधीन भूमि की संरचना सहित या संरचना रहित संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील व जिला	खसरा नम्बर	संपादन क्षेत्रफल (हे०)	भू धारक का नाम
1	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	335	0.3600	अस्सु पिता मानीया बामनीया जाति पटेलिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	337	0.3800	अस्सु पिता मानीया बामनीया जाति पटेलिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	338	0.1600	भुरा पिता बदिया जाति पटेलिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, सवसिंग पिता बदिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, रामसिंग पिता बदिया जाति पटेलिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, कुकी बेवा बदिया जाति पटेलिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, राजु पिता कसना जाति पटेलिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मडिया पिता कसना पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, कमली बेवा कसना जाति पटेलिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	339	0.5263	अस्सु पिता मानीया बामनीया जाति पटेलिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	340	0.0410	मकना पिता भुदरीया जाति पटेलिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	349	0.0786	अस्सु पिता मानीया बामनीया जाति पटेलिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7	दुधी	तहसील. रामा	350/1	0.1639	दीता पिता रामचन्द्र चारेल पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, नानसिंग पिता

		जिला. झाबुआ			रामचन्द्र चारेल पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, वरसींग पिता रामचन्द्र चारेल पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
8	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	350/2	0.1709	रमेश पिता मंगलिया वसुनिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
9	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	379	0.0107	भूदरीया पिता मानीया जाति पटेलिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
10	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	676	0.0007	नाकू पिता झुमला भूरीया जाति भील पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
11	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	603/2	0.0005	थावरीया पिता नाना मैडा जाति भील पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	604/1	0.1338	पेमा पिता नाना मैडा जाति भील पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	604/2	0.2191	थावरीया पिता नाना मैडा जाति भील पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	605/1	0.0700	थावरीया पिता नाना मैडा जाति भील पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
15	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	605/2	0.2100	पेमा पिता नाना मैडा जाति भील पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	605/3	0.0424	थावरीया पिता नाना मैडा जाति भील पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	610	0.4439	थावरीया पिता नाना मैडा जाति भील पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18	दुधी	तहसील. रामा	612/1	0.1603	थावरीया पिता नाना मैडा जाति भील पता दुधी

		जिला. झाबुआ			रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
19	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	612/2	0.1507	पेमा पिता नाना मैडा जाति भील पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	334/1	0.2000	भुरा पिता बदिया जाति पटेलिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, सवसिंग पिता बदिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, रामसिंग पिता बदिया जाति पटेलिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, कुकी बेवा बदिया जाति पटेलिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, राजु पिता कसना जाति पटेलिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मडिया पिता कसना पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, कमली बेवा कसना जाति पटेलिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21	दुधी	तहसील. रामा जिला. झाबुआ	334/2	0.3111	जवला पिता मानीया बामनिया जाति पटेलिया पता दुधी रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

[फा. सं. ई.ऑफिस फाईल सं E 514544-106]

धीरज कुमार, मुख्य अभियन्ता निर्माण-IV

**MINISTRY OF RAILWAYS****[Western Railway (Construction Organisation)]****NOTIFICATION**

Mumbai, the 11th June, 2025

**S.O. 2570(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 5170(E) dated the 30 November, 2024 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 30 November, 2024 (hereinafter referred to as the said notification ) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely new BG line project from Dahod to Indore (through Jhabua, Sardarpur, Dhar and Pithampur) 204.76 km in Jhabua district in the State of Madhya Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily News Papers — “Free Press” & “Raj Express” dated 08 December, 2024 under sub section (4) of section 20A of the said Act.

And whereas, in Dudhi village no objections were received and competent Authority have passed the orders accordingly;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

**Brief description, with or without structure, of the land under acquisition that will be affected for the construction of the new BG line project from Dahod to Indore (through Jhabua, Sardarpur, Dhar and Pithampur) in Jhabua district of Madhya Pradesh state**

S. N.	Name of the Village	Taluka & District	Khasara Number	Acquisition area (Ha.)	Land Holder's Name
1	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	335	0.3600	Assu Pita Maniya Bamaniya Jati Patelia Pata Dudhi Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
2	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	337	0.3800	Assu Pita Maniya Bamaniya Jati Patelia Pata Dudhi Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
3	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	338	0.1600	Bhura Pita Badiya Jaati Pateliya Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Savasing Pita Badiya Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Ramasing Pita Badiya Jaati Pateliya Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Kukee Beva Badiya Jaati Pateliya Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Raaju Pita Kasana Jaati Pateliya Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Madiya Pita Kasana Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Kamalee Beva Kasana Jaati Pateliya Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
4	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	339	0.5263	Assu Pita Maniya Bamaniya Jati Patelia Pata Dudhi Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
5	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	340	0.0410	Makana Pita Bhudareeya Jaati Pateliya Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
6	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	349	0.0786	Assu Pita Maniya Bamaniya Jati Patelia Pata Dudhi Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
7	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	350/1	0.1639	Deeta Pita Ramachandr Chaarel Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Naanaseeng Pita amachandr Chaarel Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Varaseeng Pita Ramachandr Chaarel Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
8	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	350/2	0.1709	Ramesh Pita Mangaliya Vasuniya Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
9	Dudhi	Taluka Rama	379	0.0107	Bhoodareeya Pita Maaneeya Jaati Pateliya

		Jila Jhabua			Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
10	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	676	0.0007	Naakoo Pita Jhumala Bhooreeya Jaati Bhil Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
11	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	603/2	0.0005	Thaavareeya Pita Naana Maida Jaati Bhil Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
12	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	604/1	0.1338	Pema Pita Naana Maida Jaati Bhil Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
13	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	604/2	0.2191	Thaavareeya Pita Naana Maida Jaati Bhil Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
14	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	605/1	0.0700	Thaavareeya Pita Naana Maida Jaati Bhil Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
15	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	605/2	0.2100	Pema Pita Naana Maida Jaati Bhil Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
16	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	605/3	0.0424	Thaavareeya Pita Naana Maida Jaati Bhil Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
17	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	610	0.4439	Thaavareeya Pita Naana Maida Jaati Bhil Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
18	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	612/1	0.1603	Thaavareeya Pita Naana Maida Jaati Bhil Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
19	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	612/2	0.1507	Pema Pita Naana Maida Jaati Bhil Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
20	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	334/1	0.2000	Bhura Pita Badiya Jaati Pateliya Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Savasing Pita Badiya Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Ramasing Pita Badiya Jaati Pateliya Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Kukee Beva Badiya Jaati Pateliya Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Raaju Pita Kasana Jaati Pateliya Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Madiya Pita Kasana Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Kamalee Beva Kasana Jaati Pateliya Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami
21	Dudhi	Taluka Rama Jila Jhabua	334/2	0.3111	Javala Pita Maaneeya Baamaniya Jaati Pateliya Pata Dudhee Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami

[F.No. E. - Office E514544-106]

DHEERAJ KUMAR, Chief Engineer Construction-IV